

6th August 2020

Electronic Filing

National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza" Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai-400051

Department of Corporate Services/Listing
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street, Fort,
Mumbai-400001

NSE Symbol : APLAPOLLO

Scrip Code : 533758

Dear Sir/Madam,

Re: Newspaper Advertisement regarding transfer of Equity Shares of the Company to IEPF Demat Account

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of the Notice published in newspaper on 06.08.2020, relating to transfer of Equity Shares, in respect of which dividend has remained unpaid/unclaimed by shareholders for seven consecutive years or more, to Investor Education and Protection Fund's Demat Account, pursuant to the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

Submitted for your kind information and necessary records.

Thanking you

Yours faithfully
For APL Apollo Tubes Limited


Deepak CS
Company Secretary



Encl: a/a

APL Apollo Tubes Limited (CIN-L74899DL 1986PLC023443)

Corp. Office : 36, Kaushambi, Near Anand Vihar Terminal, Delhi -NCR -201010, India Tel: +91-120-4041400 Fax : +91-120-4041444

Corp. Office : Tapasya Corp. Heights 4th Floor, Sector-126, Noida, Uttar Pradesh-201303 India

Regd. Office : 37, Hargovind Enclave, Vikas Marg, Delhi - 110092, India Tel: +91-11-22373437 Fax : +91-11-22373537

Unit-I : A-19, Industrial Area, Sikandrabad, Distt. Bulandshahar, U.P.-203205, India Unit-II : 332-338, Alur Village, Perandapalli, Hosur, Tamilnadu-635109, India

Unit-III : Plot No. M-1, Additional M.I.D.C. Area, Kudavali, Murbad, Maharashtra, Thane-421401, India Unit-IV : Village Bendri Near Urla Indl. Area Raipur, Chhattisgarh-493661, India

Unit-V : Survey No.443,444,538,539, Wadiyaram(Village), Chegunta (Mandal), Medak (Dist.)-502255, Telangana, India.

E-mail : info@aplapollo.com Website : www.aplapollo.com

ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.
Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051.
Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.iciciprurf.com, Email id: enquiry@icicipruam.com

Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 81 - 1205 Days Plan B (the Scheme)

Notice is hereby given that ICICI Prudential Trust Limited, Trustee to ICICI Prudential Mutual Fund has approved declaration of the following dividend under the dividend option of the Scheme, subject to availability of distributable surplus on the record date i.e. on August 11, 2020*:

Name of the Scheme/Plans	Dividend (₹ per unit) (Face value of ₹ 10/- each)*#	NAV as on August 4, 2020 (₹ Per unit)
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 81 - 1205 Days Plan B		
Dividend	0.0500	12.4913
Direct Plan - Dividend	0.0500	12.5807

\$ The dividend payout will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower depending upon the extent of distributable surplus available on the record date under the dividend option of the Scheme.

Subject to deduction of applicable statutory levy.

* or the immediately following Business Day, if that day is a Non - Business Day.

Dividend will be paid to all the unit holders/beneficial owners whose names appear in the register of unit holders/Statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable under the dividend option of the Scheme, at the close of business hours on the record date.

It should be noted that pursuant to payment of dividend, the NAV of the dividend option of the Scheme would fall to the extent of dividend payout and statutory levy (if applicable).

Suspension of trading of units of the Scheme:

The units of the Scheme are listed on BSE. The trading of units of the Scheme will be suspended on BSE with effect from closing hours of trading of August 6, 2020.

For the purposes of redemption proceeds, the record date shall be August 11, 2020.

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Place : Mumbai Sd/-

Date : August 5, 2020 Authorised Signatory

No. 003/08/2020

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprurf.com

BSE Disclaimer: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Scheme Information Document (SID) has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the SID. The investors are advised to refer to the SID for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited.

As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id and mobile number to support paper-less communications.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.iciciprurf.com or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Narayana Hrudayalaya Limited
Registered Office: 258/A, Bommasandra Industrial Area, Anekal T.O. Bengaluru - 560099
Corporate Office: 261/A, Bommasandra Industrial Area, Anekal T.O. Bengaluru - 560099
Email id: investorrelations@narayanahealth.org Website: www.narayanahealth.org
Phone: 080-7122 2129/2802

NOTICE OF THE 20TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Twentieth Annual General Meeting (20th AGM) of the Members of Narayana Hrudayalaya Limited will be convened on Monday, the 31st day of August 2020 at 11.30 a.m. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) facility to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 20th AGM, in compliance with the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder read with General Circular bearing No. 14/2020 dated 8th April 2020, No.17/2020 dated 13th April 2020 and No.20/2020, dated 5th May 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), for conducting AGM without the physical presence of Members at the venue.

In terms of the MCA circular(s)/SEBI circular, the Notice of the Meeting and the Explanatory Statement along with the Annual Report for the financial year ended 31st March 2020 will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant/RTA for communication purposes on or before 7th August 2020. The requirement of sending physical copy of the Notice of the Meeting and Annual Report to the Members have been dispensed with in compliance with MCA/SEBI circulars.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on 24th August 2020 (cut-off date) can cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 20th AGM through remote e-voting facility provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The Members are hereby informed that:

- The Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of 20th AGM, will be transacted through voting by electronic means.
- The remote e-voting shall commence at 9:00 a.m. on Thursday, 27th August 2020 and end at 5:00 p.m. on Sunday, 30th August 2020.
- The cut-off date for determining eligibility for remote e-voting or through e-voting system during the 20th AGM has been fixed as 24th August 2020.
- Any person who becomes a Member of the Company after the Company sends the Notice of the 20th AGM by email and holds shares as on the cut-off date i.e., 24th August 2020 may obtain the User ID and password by sending a request to the Company's email address nhlagm2020@narayanahealth.org. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote.
- Members may note that:
 - The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL on the elapse of voting end date i.e. 5:00 p.m. on Sunday, 30th August 2020. Once the vote on the resolutions are cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
 - The Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the 20th AGM may also participate in the 20th AGM through VC/OAVM Facility but shall not be entitled to cast their vote again.
 - Members participating in the 20th AGM and who had not cast their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their vote through e-voting system during the 20th AGM.
 - A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, participating in the 20th AGM through VC/OAVM and e-voting facility during the 20th AGM.

- The Notice of the 20th AGM and the Annual Report are available on the website of the Company at www.narayanahealth.org, website of BSE Limited at www.bseindia.com, website of NSE Limited at www.nseindia.com/. The Notice is also available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
- For queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Sarita Mote, Assistant Manager, National Securities Depository Ltd., Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or SaritaM@nsdl.co.in at telephone nos. : + 91 22 24994890 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at the Company's email address nhlagm2020@narayanahealth.org.
- Members holding shares in physical form may register their email address and mobile number with Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited (KFin) by sending an e-mail request at the email ID: einward.ris@kfintech.com along with signed scanned copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and copy of share certificate for registering their email address and receiving the Annual report, e-AGM Notice and the e-voting instructions. Members holding shares in demat form can update their e-mail address with their Depository Participant.

- Mr. Sudhindra K S, Practising Company Secretary, has been appointed by the Board of Directors of the Company as Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process and voting at the e-AGM, in a fair and transparent manner.
- The results of the remote e-voting and votes cast at the e-AGM shall be declared on or before 2nd September 2020. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website www.narayanahealth.org and on the website of NSDL i.e., www.evoting.nsdl.com immediately after their declaration, and communicated to the Stock Exchanges where the Company is listed, viz., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

By Order of the Board of Directors
For Narayana Hrudayalaya Limited
Sridhar S
Group Company Secretary, Legal & Compliance Officer

Date: 5th August 2020
Place: Bengaluru

GRP LTD.
CIN: L25191GJ1974PLC002555
Regd. Office : Plot No.8, GDCC Estate, Ankleshwar - 393 002 Dist. Bharuch, Gujarat.
Tel.No.: 022 67082600 / 2500, e-mail id : investorrelations@grpweb.com, website: www.grpweb.com

NOTICE
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on 11th August, 2020 to take on record the unaudited provisional financial results of the Company for the quarter ended 30th June, 2020. This information is also available on the website of the Company i.e. www.grpweb.com and on the website of the stock exchanges, i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Place : Mumbai
Date : 05.08.2020

For GRP Limited
Harsh Gandhi
Joint Managing Director

APL APOLLO TUBES LIMITED
Registered Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092
Corporate Office: 36, Kaushambi, Near Anand Vihar Terminal, Delhi-201010
Phone No: +91-120-4041400, Fax No: +91-120-4041444, CIN: L74899DL1986PLC023443
Email: comsec@aplapollo.com, Website: www.aplapollo.com

Notice to Shareholders for Transfer of Equity shares of the Company to Investor Education & Protection Fund (IEPF)
Notice pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") as amended.
Above rules, inter alia, provide for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or remain unclaimed by Shareholders for seven consecutive years or more, into the Demat Account of IEPF Authority.
The Company has uploaded on its website www.aplapollo.com full details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF's Demat Account. Shareholders are requested to refer to the website to verify the details of unclaimed dividends and shares liable to be transferred to IEPF's Demat Account and claim their unclaimed dividend expeditiously. In terms of the said rules, the Company has also sent individual letters to the concerned Shareholders at their registered address and through e-mail whose e-mail address registered with the Company/Registrar and Transfer Agent, for taking appropriate action, as aforesaid.
The Shareholders may take note that the unclaimed dividends and shares transferred to IEPF's Demat Account including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by concerned Shareholder from IEPF Authority by making an application in Form IEPF-5 as prescribed under the Rules.
Please note that in case we don't receive any communication including a valid claim from the concerned shareholder latest by October 6, 2020, the due date for transfer, the Company shall proceed to transfer their shares to the IEPF's Demat Account within 30 days from due date in terms of and as per the provision stipulated under the said rules, without any further act or liability on the part of the Company.
For any further queries/assistance on the subject matter, you may write/e-mail us at the contact details mentioned above.

Date : 05.08.2020
Place : New Delhi

For APL Apollo Tubes Limited
Sd/-
Deepak C S
(Company Secretary)

Sun Pharmaceutical Industries Limited
Regd Office: SPARC, Tandajai, Vadodara - 390012, Gujarat, India
Tel: 0265-6615500/600/700 Fax: 0265-2354897
Corporate Office: Sun House, Plot No. 207/1, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400053 Tel: +91 22 4324 8324
CIN: L24230GJ1993PLC019050 Website: www.sunpharma.com
Email: secretarial@sunpharma.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE
NOTICE is hereby given that the Twenty-Eighth Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Thursday, August 27, 2020 at 09:30 p.m. IST ("AGM") through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") without the physical presence of the members at a common venue, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast of the AGM at <https://www.evotingindia.com>. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
As per our Advertisement published on Monday, August 03, 2020, electronic copy of the Annual Report for the financial year 2019-20 which inter-alia includes the Notice of the AGM, has been emailed to all the members whose email addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited ("RTA")/Depositories, in accordance with the relevant circulars. The said Annual Report (including Notice of the AGM) is also available on the website of the Company at www.sunpharma.com and on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com, being the agency appointed by the Company for providing e-voting and VC/OAVM facility for the AGM. Members can attend and participate in AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in Notice of the AGM. Members are requested to carefully read all the instructions detailed in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during the AGM.
The Company is pleased to provide facility to its members, to cast their vote electronically ("remote e-voting") on the businesses as set forth in the Notice of the AGM. The remote e-voting period shall commence on Monday, August 24, 2020 at 09:00 a.m. and shall end on Wednesday, August 26, 2020 at 5:00 p.m. During this period, shareholders of the Company may cast their e-vote remotely by logging on to the website at www.evotingindia.com. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. The members who could not cast their vote by remote e-voting may also be able to cast their votes using an electronic voting system during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting and e-voting during the AGM has been provided in the Notice of the AGM.
The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email whose email ID's are registered with RTA/ Depositories. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company's RTA / Depositories, may generate login credentials by following instructions given in the Notes section to Notice of the AGM. The same login credentials may also be used by the members for attending the AGM through VC / OAVM.
The members whose email id is not registered or is not updated may register/ update their email in the following manner:
a) Members holding shares in physical mode and who have not registered/ updated their email addresses with the Company/ RTA are requested to register/ update the same by writing to the Company/ RTA with details of folio number and attaching a self-attested copy of the PAN Card at secretarial@sunpharma.com or to the Company's RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in.
b) Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/ update their email addresses with the Depositories Participant(s) with whom they maintain their demat account(s).
A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Thursday, August 20, 2020 only shall be entitled to avail facility of remote e-voting / voting during the Meeting through electronic voting system. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting will be able to join the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
Any person who becomes a member of the Company after sending of the Notice and holds shares of the Company as on the cut-off date i.e. Thursday, August 20, 2020 and whose PAN is not registered with the Company may obtain the e-voting code for the purpose of remote e-voting by writing to the RTA / Company at rnt.helpdesk@linkintime.co.in/ secretarial@sunpharma.com or may contact the undersigned.
Detailed procedure for e-voting is provided in the Notice of Meeting. In case of any queries or issues regarding attending AGM or e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under 'Help' section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542). In case of any grievances pertaining to remote e-voting, the Members/ Beneficial Owners may write to Mr. Rakesh Dalvi, Manager - CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatal Mills Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013, Maharashtra, India or send an e-mail on helpdesk.evoting@cdslindia.com or may call on 022-23058542/43.
Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, August 21, 2020 till Thursday, August 27, 2020 (both days inclusive) for the purpose of the AGM and for the payment of final Dividend. The Dividend, if approved by the members at the AGM, shall be paid on or before Tuesday, September 01, 2020, to the Equity Shareholders of the Company whose name stand on the Register of Members as beneficial owners at the close of business hours on Thursday, August 20, 2020 as per the list provided by the Depositories in respect of shares held in electronic form and as Members in the Register of Members of the Company after giving effect to valid transmissions/transpositions in physical form lodged with the Company on or before Thursday, August 20, 2020. The payment of final dividend, as per the relevant circulars, shall be made through electronic mode to the members who have updated their bank account details. Dividend warrants/ demand drafts will be dispatched to the registered address of the members who have not updated their bank account details, once the normalcy is restored. The members may note that the payment of dividend will be subject to deduction of tax at source at applicable rates. Members may refer the Notes section to the Notice of AGM for more details.
Members, to receive the dividend directly into their bank account through Electronic Clearing Service (ECS) or such other electronic mode, are requested to register / update their complete bank details in the following manner:
(a) Members holding shares in physical mode may write an email to the RTA / Company at rnt.helpdesk@linkintime.co.in / secretarial@sunpharma.com and along with the (i) scanned copy of the signed request letter which shall contain member's name, folio number, bank details (Bank account number, Bank and Branch Name and address, IFSC, MICR details), (ii) self-attested copy of the PAN card and (iii) colour scanned copy of original cancelled cheque leaf (with shareholder's name printed on it).
(b) Members holding shares in dematerialized mode may reach out to their Depositories Participant(s) with which they maintain their demat account(s), and get their Bank Account details registered / updated in your demat account(s), by following the process advised by your Depository Participant(s).

Place : Mumbai
Date : August 05, 2020

By order of the Board of Directors
For Sun Pharmaceutical Industries Limited
Ashok I. Bhuta
Comppliance Officer

KIRLOSKAR PNEUMATIC CO. LTD.
A Kirloskar Group Company
Registered Office:
Hadapsar Industrial Estate, Pune - 411013
CIN: L29120PN1974PLC110307

Enriching Lives

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given pursuant to Regulation 47(1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company, will be held on Wednesday, August 12, 2020, *inter alia*, to consider and take on record the Unaudited Financial Results for the quarter ended on June 30, 2020.

Also in terms of Regulation 47(2) of the aforesaid Regulations, this Notice is also available on the websites of:
a. The Company - www.kirloskarpneumatic.com
b. The BSE Limited - www.bseindia.com

For KIRLOSKAR PNEUMATIC CO. LTD.
Sd/-
Jitendra Shah
Company Secretary
Place : Pune
Date : 05 August, 2020
Tel: +91 20 26727000 • Fax: +91 20 26870297
Email: sec@kpcl.net • Website: www.kirloskarpneumatic.com

Mark bearing word 'Kirloskar' in any form as a suffix or prefix is owned by Kirloskar Proprietary Ltd. and Kirloskar Pneumatic Company Ltd. is the Permitted User

PG ELECTROPLAST LIMITED
CIN: L32109DL2003PLC119416
Regd. Office: DTJ209, 2nd Floor, DLF Tower- B, Jasola, New Delhi - 110025
PH: 91-120-2569323
Email: investors@pgel.in, Website: www.pgel.in

NOTICE
Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company has been scheduled on Thursday, August 13, 2020 at 4:15 P.M. at Corporate office at P-42 to 4/6, Site B, UPSIDC Indl. Area, Surajpur, Greater Noida (U.P.) 201306 to, *inter alia*, consider & approve Unaudited Financial Results for the quarter ended on June 30, 2020.

This information is also available on Company's website - www.pgel.in and may also be accessed at website of stock exchanges viz. BSE Limited at www.bseindia.com & National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

Further, it is notified that window for trading in shares of the Company shall continue to remain closed till Saturday, August 15, 2020.
For PG Electroplast Limited
Sd/-
(Bhawa Nand Choudhary)
Managing Director
Place: Greater Noida
Date: 05.08.2020

Sun Pharma Advanced Research Company Limited
Regd Office: Sun Pharma Advanced Research Centre, Akota Road, Akota, Vadodara - 390 020.
Tel: 0265-2330815 CIN No: L73100GJ2006PLC047837 Website: www.sparc.life

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2020

Sr. No.	Particulars	₹ in Lakhs	
		3 Months ended 30.06.2020 Unaudited	3 Months ended 30.06.2019 Unaudited
1.	Total Income from Operations	18,611	2,099
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	5,669	(9,419)
3.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and / or Extraordinary Items)	5,669	(9,419)
4.	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax and / or Extraordinary Items)	5,669	(9,419)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (After tax)	5,603	(9,399)
6.	Equity Share Capital	2,621	2,621
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	(4,485)	
8.	Basic / Diluted Earning Per Share (of ₹1/- each) (for continuing and discontinued operations)	2.16	(3.59)

i) The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2020 are available on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and the Company viz. www.sparc.life
ii) The current liabilities exceed the current assets as at June 30, 2020. The Company, as per business plans, is in the process of evaluating various sources of raising funds for its operations. The Company has also received a financial support letter from its parent Company which is valid till time the Company is able to raise funds from external sources.
By order of the Board
Dilip S. Shangkhi
Chairman and Managing Director
Mumbai, August 4, 2020

HEXA TRADEX LIMITED
CIN - L51101UP2010PLC042382
Regd. Office : A-1, UPSIDC Indl. Area, Nandgaon Road, Kosi Kalan, Distt. Mathura (U.P.)-281403
Corp. Office : Jindal Centre, 12, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020

S. No.	Particulars	₹ (lakhs)					
		Standalone			Consolidated		
		Quarter ended 30.06.2020 Unaudited	Year ended 31.03.2020 Audited	Quarter ended 30.06.2019 Unaudited	Quarter ended 30.06.2020 Unaudited	Year ended 31.03.2020 Audited	Quarter ended 30.06.2019 Unaudited
1.	Total income from operations	1.29	2.53	1.09	10.92	29.92	6.80
2.	Net profit/(loss) before tax	(39.84)	(260.25)	(45.54)	318.08	(2,498.37)	(1,571.31)
3.	Net profit/(loss) after tax	(29.81)	(217.00)	(32.87)	323.14	(1,992.60)	(1,167.74)
4.	Total comprehensive income [Comprising profit/(loss) (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(22.72)	363.11	(34.57)	2,644.97	(4,881.86)	(2,101.21)
5.	Equity share capital	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91
6.	Other equity		24,797.54			22,722.94	
7.	Earnings per share (of ₹ 2/- each)						
(1)	Basic	(0.05)	(0.39)	(0.06)	0.58	(3.61)	(2.11)
(2)	Diluted	(0.05)	(0.39)	(0.06)	0.58	(3.61)	(2.11)

Note:
1. The above is an extract of the detailed format of quarterly/annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/annual financial results are available on the websites of the stock exchanges, www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website, www.hexatradex.com.

On behalf of Board of Directors of Hexa Tradex Limited
Sd/-
Neeraj Kanagat
Whole-time Director and CFO
DIN : 07586915
Place: New Delhi
Date: August 5, 2020

MOTILAL OSWAL Mutual Fund
Motilal Asset Management Company Limited
Registered & Corporate Office : 10th Floor, Motilal Oswal Tower, Rahimtulla Sayani Road, Opposite Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai - 400 025
● Toll Free No.: +91 8108622222, +91 22 40548002 ● Email : mfservice@motilaloswal.com
● CIN No.: U67120MH2008PLC188186
● Website: www.motilalosalwfm.com and www.mostshares.com

Notice cum Addendum to the Scheme Information Document (SID) and Key Information Memorandum (KIM) of the Scheme(s) of Motilal Oswal Mutual Fund (MOMF)

Investors are hereby requested to take note of the following changes in address of Investor Service Centers (ISC) of Kfin Technologies Private Limited, the Registrar and Transfer Agent to the Schemes of MOMF and Official Point of Acceptance of Transactions (OPAT) for the Schemes of MOMF.

Investor Service Centers (Effective Date: August 03, 2020):

Location

अहल्यानिया कॉन्ट्रेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. ए-177, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 (सीआरएफ. L4510D11979PL0009654)
 वेबसाइट: www.aclnet.com
 ई-मेल: cs.corporate@aclnet.co

जेएमजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 पंजी. कार्यालय: 574, 2रा तल, मेन रोड, चिगम दिल्ली, नई दिल्ली-110017
 E-mail: info@jmgcorp.in, Website: www.jmgcorp.in
 Phone No. 011-30640080/81 Fax: 011-30640099
 CIN: L31104DL1989PLC362504
 बोर्ड की बैठक की सूचना भारतीय प्रतिभूति और निगम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 29 के अनुसार यह सूचित किया जाता है कि अन्य बातों के साथ-साथ 30.06.2020 को समाप्त तिमाही हेतु अलोकप्रतिष्ठित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन एवं कंबोइलिटिड) तथा अन्य कार्यालयी मंदा, यदि कोई हो, पर विचार करने के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बुलाई/बीठो को आमंत्रित करने के लिए सूचना जारी की जा रही है।

TARANGINI INVESTMENTS LIMITED
 CIN: L67190DL1982PLC013486
 Regd. Off.: K-37/A, Basement, Kailash Colony Near Kailash Metro Station, New Delhi-110048
 E-mail: tarangini0123@gmail.com
 Website: www.taranginiinvestmentsltd.com

NOTICE OF BOARD MEETING
 Pursuant to Regulation 29, read with Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulation, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company (3/2020-21) is scheduled to be held on **Friday, 14th August, 2020 at 02:30 p.m.** at the registered office of the Company, inter alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results along with Limited Review Report of the Company for the quarter ended 30th June, 2020.

रामा स्टील द्यूब्ल लि. (रामेश राय) कंपनी प्राइवेट लि.
 पंजी. कार्यालय: बी-8, वीरवार पब्लिक मेन रोड, गाजीपुर नई दिल्ली-110096
 CIN: L2720DL1974PL000114
 फोन: 011-43446920
 ई-मेल: investor@ramasteel.com
 वेबसाइट: www.ramasteel.com

सूचना
 शेरी (एसओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 29(1) के अनुसार एवं, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, अन्य बातों के साथ-साथ, 30.06.2020 को समाप्त तिमाही के अंतिम वित्तीय परिणामों के संबंध में निदेशक मंडल की बैठक बुलाई/बीठो को आमंत्रित करने के लिए सूचना जारी की जा रही है।

PNB NB GILTS LTD
पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
 (CIN: L74899DL1996PLC077120)
 पंजीकृत कार्यालय: 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन: 011-23325759, 23325779
 फैक्स: 011-23325751, 23325763 वेबसाइट: www.pnbgilts.com ई-मेल: pnbgilts@pnbgilts.com

30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही अर्नकेशित वित्तीय परिणाम का सार

क्र.सं.	विवरण	30.06.2020 को समाप्त तिमाही (समीक्षित)	31.03.2020 को समाप्त तिमाही (लेखापरीक्षित)	30.06.2019 को समाप्त तिमाही (समीक्षित)	वार्षिक परिणाम 31.03.2020 (लेखापरीक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	49145.42	27607.35	19354.17	88224.45
2.	अवधि का शुद्ध लाभ/(घाटा) (कर, आपदादिक तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	38042.76	13206.60	6737.75	33102.15
3.	अवधि का कर पूर्व शुद्ध लाभ/(घाटा) (कर, आपदादिक तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	38042.76	13206.60	6737.75	24980.57
4.	अवधि का कर उपरान्त शुद्ध लाभ/(घाटा) (आपदादिक तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	28438.89	9901.45	4516.08	18635.46
5.	अवधि की कुल व्यापक आय (इसमें अवधि का कर उपरान्त शुद्ध लाभ/(घाटा) और कर उपरान्त अन्य व्यापक आय सम्मिलित हैं)	28410.09	9828.97	4514.08	18520.27
6.	इक्विटी शेयर पूँजी	18001.01	18001.01	18001.01	18001.01
7.	आय प्रति अंश (रु. 10 प्रत्येक की) रु. में	15.80	5.50	2.51	10.35
	घटाकर:	15.80	5.50	2.51	10.35

कायालय नगर निगम कोटा उत्तर
 क्रमांक: ननिको/निर्माण/2020/06-15 दिनांक: 4.8.2020

संशोधित निवदा सूचना
 नगर निगम कोटा द्वारा ई-निवदा आमंत्रण सूचना संख्या 13/2020-21 क्रमांक 7162-7171 दिनांक 21.07.2020 को जारी की गयी थी। उक्त आमंत्रित निवदा सूचना संख्या क्रम संख्या 01 से 03 तक की विविधों को तारीखों में अपरिहार्य कारणों से निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

क्र.सं.	विवरण	पूर्व में	संशोधित तिथि
1.	ऑनलाइन निविदा कागजातों व अपरिहार्य	22.07.2020 से 04.08.2020	10.08.2020 (कार्यालय समय) करने की सुविधा
2.	बी.डी. प्राप्त करने की तिथि	05.08.2020 (संय 2:00 बजे तक)	11.08.2020 (संय 2:00 बजे तक)
3.	निविदा कागजातों की खरीद की तिथि	05.08.2020 (संय 2:00 बजे तक)	11.08.2020 (संय 2:00 बजे तक)
4.	निविदा बिल कोलेन की तिथि	तकनीकी बिल परीक्षण के पर्यन्त	तकनीकी बिल परीक्षण के पर्यन्त

पीजी इलेक्ट्रोलाइट लिमिटेड
 CIN: L32109DL2003PLC119416
 पंजी. कार्यालय: बीटीनो 209, 2 फ्लोर, डीएलएफ टॉवर-बी, जसोला, नई दिल्ली-110025
 फोन: 91-120-2569323
 ईमेल: investor@pgil.in, वेबसाइट: www.pgil.in

सूचना
 एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुलाई/बीठो को आमंत्रित करने के लिए सूचना जारी की जा रही है।

Subros Limited
 Regd. Office: LGF, World Trade Centre, Barakhamba Lane, New Delhi-110 001
 Tel. 011-23414946-49, Fax No. 011-23414945, CIN No. L74899DL1985PLC020134
 E-mail: rakesh.arora@subros.com
 Website: www.subros.com

NOTICE
 Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 12th August, 2020, inter-alia to consider and approve the unaudited financial results for the quarter ended 30th June, 2020.

एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय: 37, हर्गोविन्द एक्सप्रेस, विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092
 कार्यालय: 36, कोलाया, आनंद विहार टर्मिनल के निकट, दिल्ली-201010
 Phone No. +91-120-4041400, Fax No. +91-120-4041444, CIN: L74899DL1986PLC023443, Email: comsec@apollotubes.com, Website: www.apollotubes.com

निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईसीएफ) के कम्पनी की इक्विटी शेयरों के अंतरण के लिये प्रेरणादायक के लिये सूचना
 यह सूचना निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 (नियमावली) तथा संशोधित के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) के प्राधान्यों के अनुपालन में है।

PG
पीजी इलेक्ट्रोलाइट लिमिटेड
 CIN: L32109DL2003PLC119416
 पंजी. कार्यालय: बीटीनो 209, 2 फ्लोर, डीएलएफ टॉवर-बी, जसोला, नई दिल्ली-110025
 फोन: 91-120-2569323
 ईमेल: investor@pgil.in, वेबसाइट: www.pgil.in

पुनः स. आईएनसी-25 ए
 क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र दिल्ली के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 नवा कम्पनी (निगम) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मातहत में

सूचना
 एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुलाई/बीठो को आमंत्रित करने के लिए सूचना जारी की जा रही है।

जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड
 CIN: L74899DL1996PLC046007
 पंजी. कार्यालय: 128, प्रथम तल, शिवा मार्केट पीएमएच दिल्ली-110034
 Tel. No. 011-47330330 | Email- Investor.grm@gmail.com | Website: www.grmrice.com

सूचना
 निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईसीएफ) प्राधिकरण की डीमैट खाता में कम्पनी की इक्विटी शेयरों का अंतरण यह सूचना निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016, साथ-साथ पर पत्र-संशोधित ("नियमावली") के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124 (6) के प्राधान्यों के अनुपालन में प्रकाशित की जा रही है।

शेड्यूल II
फॉर्म बी सार्वजनिक सूचना
 (इन्सॉल्वेंसी एक्ट 2016 (निवृत्त/समाप्त) सूचीबद्ध, 2016 का सुलेशन 12) **हॉटलाइन सीपीटी लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ-परिसमापन में**

क्र.सं.	विवरण	संशोधित तिथि
1.	कोर्पोरेट देवदार का नाम	हॉटलाइन सीपीटी लिमिटेड
2.	कोर्पोरेट देवदार की तिथि	19/06/1996
3.	प्राधिकरण लिखित अंतरण कोर्पोरेट देवदार समावेश/पंजीकृत	आरक्षित, दिल्ली
4.	कोर्पोरेट देवदार का नाम/कोर्पोरेट देवदार का सीलित देवदार पत्राचार	पुडु 10 रीजल 1996बीएसटीएल797556
5.	कोर्पोरेट देवदार का सीलित देवदार का नाम और पंजीकृत	पंजीकृत कार्यालय: 52 ए. ओबला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-11, साख दिल्ली, नई दिल्ली, भारत-110020
6.	इन्सॉल्वेंसी प्रोसेस के बंद होने की अनुमानित तिथि	31/07/2020
7.	कोर्पोरेट देवदार के हितधारकों के प्रथम अंतरण तिथि	आदेश प्राप्त किया गया: 03/08/2020
8.	वर्तमान परिसमापन कार्य करने वाले	मार्ग: श्री विनय शाह पंजी. नं. आईबीआईआई/आईपी-001/आईपी-बी/1169/2018-19/11837
9.	परिसमापक के बॉर्ड के साथ पंजीकृत पता और ई-मेल	208: नरकपुर विहार, नारदीनग, ऑफिस बंगला के निचे, एसीएनबी बंगला के निचे, नरकपुर, अहमदाबाद, भारत-380009 ईमेल आईडी: chirag.arp@gmail.com
10.	परिसमापक के साथ संबंध हेतु पता और ई-मेल पता	208: नरकपुर विहार, नारदीनग, ऑफिस बंगला के निचे, एसीएनबी बंगला के निचे, नरकपुर, अहमदाबाद, भारत-380009 ईमेल आईडी: chirag.arp@gmail.com

एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय: 37, हर्गोविन्द एक्सप्रेस, विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092
 कार्यालय: 36, कोलाया, आनंद विहार टर्मिनल के निकट, दिल्ली-201010
 Phone No. +91-120-4041400, Fax No. +91-120-4041444, CIN: L74899DL1986PLC023443, Email: comsec@apollotubes.com, Website: www.apollotubes.com

निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईसीएफ) के कम्पनी की इक्विटी शेयरों के अंतरण के लिये प्रेरणादायक के लिये सूचना
 यह सूचना निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 (नियमावली) तथा संशोधित के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) के प्राधान्यों के अनुपालन में है।

जेआरएम ओवरसीज लिमिटेड
 CIN: L74899DL1996PLC046007
 पंजी. कार्यालय: 128, प्रथम तल, शिवा मार्केट पीएमएच दिल्ली-110034
 Tel. No. 011-47330330 | Email- Investor.grm@gmail.com | Website: www.grmrice.com

सूचना
 निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईसीएफ) प्राधिकरण की डीमैट खाता में कम्पनी की इक्विटी शेयरों का अंतरण यह सूचना निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016, साथ-साथ पर पत्र-संशोधित ("नियमावली") के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124 (6) के प्राधान्यों के अनुपालन में प्रकाशित की जा रही है।

पुनः स. आईएनसी-25 ए
 क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र दिल्ली के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 नवा कम्पनी (निगम) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मातहत में

सूचना
 एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुलाई/बीठो को आमंत्रित करने के लिए सूचना जारी की जा रही है।

एल्केमिस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 पंजी. कार्यालय: आर-4, वृन्दि नं. 103, 1ला तल, खिड़की एक्सप्रेस मेन रोड, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
 सीआइएन: L74899DL1993PLC055768 | ईमेल: info@alchemist-corp.com | फोन: 011-29544474

30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के अर्नकेशित वित्तीय परिणाम

विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष
परिचालनों से कुल आय	11.08	4.75	5.50	34.24
कर तथा एसोसिएटेड एवं संबन्धित उपकरणों में (हानि)/लाभ के शेयर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	4.84	(3.75)	0.62	4.66
कर तथा विशेष मदों के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	3.94	(4.17)	0.62	4.24
अवधि के लिए कुल व्यापक (हानि)/आय	3.94	(4.17)	0.62	4.24
प्रदत्त इक्विटी पूँजी (सम मूल्य रु. 10/- प्रति)	491.43	491.43	491.43	491.43
पुनर्मुल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त आरक्षित (अंतिम अर्नकेशित तुलन पत्र के अनुसार)			(67.22)	(67.04)
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (वाणिज्यिक नहीं)	0.08	(0.08)	0.01	0.09
मूल	0.08	(0.08)	0.01	0.09

एल्केमिस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 पंजी. कार्यालय: आर-4, वृन्दि नं. 103, 1ला तल, खिड़की एक्सप्रेस मेन रोड, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
 सीआइएन: L74899DL1993PLC055768 | ईमेल: info@alchemist-corp.com | फोन: 011-29544474

30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के अर्नकेशित वित्तीय परिणाम

विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष
परिचालनों से कुल आय	11.08	4.75	5.50	34.24
कर तथा एसोसिएटेड एवं संबन्धित उपकरणों में (हानि)/लाभ के शेयर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	4.84	(3.75)	0.62	4.66
कर तथा विशेष मदों के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	3.94	(4.17)	0.62	4.24
अवधि के लिए कुल व्यापक (हानि)/आय	3.94	(4.17)	0.62	4.24
प्रदत्त इक्विटी पूँजी (सम मूल्य रु. 10/- प्रति)	491.43	491.43	491.43	491.43
पुनर्मुल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त आरक्षित (अंतिम अर्नकेशित तुलन पत्र के अनुसार)			(67.22)	(67.04)
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (वाणिज्यिक नहीं)	0.08	(0.08)	0.01	0.09
मूल	0.08	(0.08)	0.01	0.09

DCM SHRIRAM INDUSTRIES LIMITED
 CIN: L74899DL1989PLC035140
 Regd. Office: 5th Floor, Kanchenjunga Building, 18 Barakhamba Road, New Delhi - 110001 Phone No.: 011-43745000, Email: investorservices@dcmstr.com, Website: www.dcmstr.com

NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY
 The 29th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) on Wednesday, the 2nd September, 2020 at 11:00 AM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI (collectively called "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the e-AGM dated 27th June, 2020. Members will be able to attend the e-AGM through VC/ OAVM or view the telecast at https://meetings.kfintech.com. Members participating through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum u/s 103 of the Companies Act, 2013.

एसआरयू स्टील्स लिमिटेड
 सीआइएन: L17300DL1995PLC107286
 पंजी. कार्यालय: ए-48, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052
 फोन: 011-27373622
 ई-मेल: srusteel@yahoo.in
 वेबसाइट: www.srusteel.com

सूचना
 एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुलाई/बीठो को आमंत्रित करने के लिए सूचना जारी की जा रही है।

एल्केमिस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 पंजी. कार्यालय: आर-4, वृन्दि नं. 103, 1ला तल, खिड़की एक्सप्रेस मेन रोड, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
 सीआइएन: L74899DL1993PLC055768 | ईमेल: info@alchemist-corp.com | फोन: 011-29544474

30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के अर्नकेशित वित्तीय परिणाम

विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष
परिचालनों से कुल आय	11.08	4.75	5.50	34.24
कर तथा एसोसिएटेड एवं संबन्धित उपकरणों में (हानि)/लाभ के शेयर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	4.84	(3.75)	0.62	4.66
कर तथा विशेष मदों के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	3.94	(4.17)	0.62	4.24
अवधि के लिए कुल व्यापक (हानि)/आय	3.94	(4.17)	0.62	4.24
प्रदत्त इक्विटी पूँजी (सम मूल्य रु. 10/- प्रति)	491.43	491.43	491.43	491.43
पुनर्मुल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त आरक्षित (अंतिम अर्नकेशित तुलन पत्र के अनुसार)			(67.22)	(67.04)
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (वाणिज्यिक नहीं)	0.08	(0.08)	0.01	0.09
मूल	0.08	(0.08)	0.01	0.09

एल्केमिस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 पंजी. कार्यालय: आर-4, वृन्दि नं. 103, 1ला तल, खिड़की एक्सप्रेस मेन रोड, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
 सीआइएन: L74899DL1993PLC055768 | ईमेल: info@alchemist-corp.com | फोन: 011-29544474

30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के अर्नकेशित वित्तीय परिणाम

विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष
परिचालनों से कुल आय	11.08	4.75	5.50	34.24
कर तथा एसोसिएटेड एवं संबन्धित उपकरणों में (हानि)/लाभ के शेयर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	4.84	(3.75)	0.62	4.66
कर तथा विशेष मदों के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	3.94	(4.17)	0.62	4.24
अवधि के लिए कुल व्यापक (हानि)/आय	3.94	(4.17)	0.62	4.24
प्रदत्त इक्विटी पूँजी (सम मूल्य रु. 10/- प्रति)	491.43	491.43	491.43	491.43
पुनर्मुल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त आरक्षित (अंतिम अर्नकेशित तुलन पत्र के अनुसार)			(67.22)	(67.04)
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (वाणिज्यिक नहीं)	0.08	(0.08)	0.01	0.09
मूल	0.08	(0.08)	0.01	0.09

एल्केमिस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 पंजी. कार्यालय: आर-4, वृन्दि नं. 103, 1ला तल, खिड़की एक्सप्रेस मेन रोड, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
 सीआइएन: L74899DL1993PLC055768 | ईमेल: info@alchemist-corp.com | फोन: 011-29544474

30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के अर्नकेशित वित्तीय परिणाम

विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष
परिचालनों से कुल आय	11.08	4.75	5.50	34.24
कर तथा एसोसिएटेड एवं संबन्धित उपकरणों में (हानि)/लाभ के शेयर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	4.84	(3.75)	0.62	4.66
कर तथा विशेष मदों के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	3.94	(4.17)	0.62	4.24
अवधि के लिए कुल व्यापक (हानि)/आय	3.94	(4.17)	0.62	4.24
प्रदत्त इक्विटी पूँजी (सम मूल्य रु. 10/- प्रति)	491.43	491.43	491.43	491.43
पुनर्मुल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त आरक्षित (अंतिम अर्नकेशित तुलन पत्र के अनुसार)			(67.22)	(67.04)
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (वाणिज्यिक नहीं)	0.08	(0.08)	0.01	0.09
मूल	0.08	(0.08)	0.01	0.09

DCM SHRIRAM INDUSTRIES LIMITED
 Sd/- Y.D. Gupta
 Company Secretary
 3F405
 New Delhi
 Dated: 05.08.2020

एसआरयू स्टील्स लिमिटेड
 सीआइएन: L17300DL1995PLC107286
 पंजी. कार्यालय: ए-48, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052
 फोन: 011-27373622
 ई-मेल: srusteel@yahoo.in
 वेबसाइट: www.srusteel.com

सूचना
 एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुलाई/बीठो को आमंत्रित करने के लिए सूचना जारी की जा रही है।

एल्केमिस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 पंजी. कार्यालय: आर-4, वृन्दि नं. 103, 1ला तल, खिड़की एक्सप्रेस मेन रोड, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
 सीआइएन: L74899DL1993PLC055768 | ईमेल: info@alchemist-corp.com | फोन: 011-29544474

30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के अर्नकेशित वित्तीय परिण